

अंक योजना - प्रतिदर्श प्रश्नपत्र (2023-24)

हिंदी (अ) कोड संख्या 002

कक्षा - दसवीं

पूर्णांक:80

सामान्य निर्देश :

- (1) इस अंक योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। इस प्रश्नपत्र में वस्तुपरक एवं वर्णनात्मक प्रश्न हैं। अतः अंक योजना में दिए गए वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर-बिंदु अंतिम नहीं हैं। ये सुझावात्मक एवं सांकेतिक हैं।
- (2) यदि परीक्षार्थी इन सांकेतिक बिंदुओं से भिन्न, किंतु उपयुक्त उत्तर दें, तो उन्हें अंक दिए जाएँ।
- (3) समान त्रुटियों के लिए स्थान-स्थान पर अंक न काटे जाएँ।
- (4) गुणवत्तापूर्ण, सटीक उत्तर पर शत-प्रतिशत अंक देने में किसी प्रकार का संकोच न किया जाए।
- (5) मूल्यांकन में 0 से 100 प्रतिशत अंकों का पैमाना स्वीकार्य है।
- (6) मूल्यांकन कार्य निजी व्याख्या के अनुसार नहीं, बल्कि अंक योजना के निर्देशानुसार ही किया जाए।

खंड - अ

**प्रश्न 1** अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न (1×5=5)

- क. C. ये जनमानस के सुख-दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं।
- ख. B. विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से
- ग. C. कथन (A) सही है और कारण ② कथन (A) की सही व्याख्या है।
- घ. D. 1 और 2 सही है।
- ड. D. ये गीत भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं।

**प्रश्न 2** अपठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न (1×5=5)

- क. A. हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं।
- ख. C. किसान फसलों से प्रेम करते हैं।
- ग. A. बिना विश्राम परिश्रम कर
- घ. D. कथन (A) व (R) सही हैं और कथन (A), (R) की सही व्याख्या नहीं है।
- ड. C. धरती को साड़ी पहनाते

**प्रश्न 3** रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। (1×4=4)

- क. A. रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।
- ख. C. दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।

- ग. B. हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड इयर भी खोलना पड़ा।  
घ. D. 2 और 4 सही हैं।  
ड. B. 1 ii, 2 iii, 3 iii

**प्रश्न 4 'वाच्य' पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए-**  
**(1x4=4)**

- क. A. बालगोबिन भगत द्वारा कबीर को 'साहब' माना जाता था।  
ख. B. भाव वाच्य  
ग. B. कर्तृ वाच्य  
घ. D. 2 और 4 सही हैं।  
ड. B. 1 ii, 2. iii, 3. i

**प्रश्न 5 'पद परिचय' पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए-**  
**(1x4=4)**

- क. B. सर्वनाम, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता  
ख. A. विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कक्षा विशेष्य  
ग. D. संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक  
घ. A. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, हँसना क्रिया का विशेषण  
ड. A. संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन

**प्रश्न 6 'अलंकार' पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए-**  
**(1x4=4)**

- क. A. उत्प्रेक्षा  
ख. D. मानवीकरण  
ग. A. उत्प्रेक्षा  
घ. D. चित्रकूट जनु अचल अहेरी।  
ड. D. श्लेष

**प्रश्न 7 पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए-**  
**(1x5 =5)**

- क. A. जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई।  
ख. B. मूर्ति के बारे में  
ग. B. आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया है।  
घ. C. मूर्ति पर एक नया चश्मा था।  
ड. D. देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है।

**प्रश्न 8 'क्षितिज' के गद्य पाठों के आधार निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए- (1x2=2)**

- क. A. आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की  
ख. A. संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण।

**प्रश्न 9 पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए- (1x5=5)**

- क. B. लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए  
ख. D. इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥  
ग. A. देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर  
घ. A. व्यंग्य का  
ड. A. वीरता

**प्रश्न 10 पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित दो प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए-(1x2 =2)**

- क. C. खिले हुए सुंदर कमल के समान ।  
ख. A. उसकी मानवीयता

**खंड - ब (वर्णनात्मक प्रश्न)**

**प्रश्न 11 गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए:**

**(2x3=6)**

- क. नहीं।  
नवाब साहब द्वारा लेखक की उपेक्षा  
खीरा छीलने, काटने, नमक-मिर्च बुरकने आदि प्रक्रिया

- और बिना सेवन किए ही उसके स्वाद से तृप्त हो संतुष्ट हो जाने का दिखावा
- ख. प्लैट कल्चर में अकेलापन, परस्पर अलगाव, कृत्रिम जीवन जबकि लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में पारस्परिक सद्भाव, पारिवारिक संबंध, सहज जीवन
- ग. मांगलिक अवसरों पर वातावरण में पवित्रता और आनंद भरने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र द्वारा बनाई जाने वाली ध्वनि, मंगल ध्वनि कहलाती है। राष्ट्रीय पर्व हों या धार्मिक उत्सव सभी अवसरों पर शहनाई वादन किया करते थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहनाई वादन में प्रसिद्ध। बिस्मिल्लाह खान सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक शहनाई, बनारस और बाबा विश्वनाथ के प्रति अटूट आस्था निरंतर रियाज़, सहज और दिखावे से दूर
- घ. अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों का उदाहरण

**प्रश्न 12 निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए:**

**(2x3=6)**

- क. स्वयं को हारिल पक्षी व श्रीकृष्ण को लकड़ी की भाँति बताया है। हारिल पक्षी की भाँति ही वे श्रीकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण गुड़ से चिपटी चींटियों के समान मन, कर्म और वचन से श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित वे श्रीकृष्ण को कभी अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहती।
- ख. वह किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा साहस और शक्ति व्यक्ति को अहंकारी बनाती है जबकि इनके साथ विनम्रता का समावेश व्यक्ति को सदाचारी और व्यवहार से मधुर बनाता है। दूसरों को आदर करना सिखाती है विनम्र व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाता है पाठ में आए राम और लक्ष्मण लक्ष्मण और परशुराम के व्यक्तित्व के उदाहरण से स्पष्ट करें।
- ग. कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुःखी नहीं होना चाहता है, उसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। कवि अपने अभावग्रस्त जीवन के दुःखों को खुद तक सिमित रखना चाहते हैं। शिक्षार्थी अपने मतानुसार लिखेंगे

घ. किसानों द्वारा निरंतर परिश्रम और देखभाल के फलस्वरूप फसलों का लहलहाना।

**प्रश्न 13** पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए-

**(4x2=8)**

क. माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है।

भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह के बावजूद विपदा आने पर अपनी माँ की गोद में जाकर छिपना

माँ के आँचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है।

ख. अपनी आंतरिक विवशता के कारण

उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है

स्वयं को जानने के लिए

ग. गंतोक

मेहनती लोग

अपनी प्रकृति और संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग

कठिनाईयों और जोखिमों के बावजूद शहर को खुबसूरत बनाने के लिए परिश्रम

**प्रश्न 14** किसी एक विषय पर संकेत-बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए -

**(6x1=6)**

विषयवस्तु- 3 अंक

भाषा- 1 अंक

प्रस्तुति- 2 अंक

**प्रश्न 15** किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए:-

**(5x1=5)**

आरंभ व अंत की औपचारिकताएँ - 1 अंक

विषयवस्तु- 2 अंक

भाषा- 1 अंक

प्रस्तुति- 1 अंक

**प्रश्न 16** किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में स्ववृत्त / ई-मेल लिखिए:-

**(5x1=5)**

आरंभ व अंत की औपचारिकताएँ - 1 अंक

विषयवस्तु- 2 अंक

भाषा- 1 अंक

प्रस्तुति- 1 अंक

**प्रश्न 17** किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन अथवा संदेश लेखन

**(4x1=4)**

विषयवस्तु-	1 अंक
प्रस्तुति-	1 अंक
भाषा -	1 अंक

---

**प्रतिदर्श प्रश्न पत्र (2023-24)**  
**कक्षा 10वीं हिंदी -अ (कोड 002)**

निर्धारित समय: 3 घंटे

पूर्णांक: 80

**सामान्य निर्देश :**

1. इस प्रश्नपत्र में दो खंड हैं- खंड 'अ' और 'ब'। खंड क में वस्तुपरक / बहुविकल्पी और खंड-ख में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं।
2. प्रश्नपत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।
3. यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए।
4. खंड 'अ' में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उपप्रश्नों की संख्या 44 हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उपप्रश्नों के उत्तर दीजिए।
5. खंड 'ब' में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**खंड-अ (बहुविकल्पी/वस्तुपरक प्रश्न)**

**प्रश्न 1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक (1×5=5) उपयुक्त उत्तर वाले पर विकल्प चुनकर लिखिए।**

हमारे देश में हिंदी फिल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख-दुःख के साथी रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों के गीतों ने आम जन के हृदय में लोकगीतों सी आत्मीय जगह बना ली है। जिस तरह से एक जमाने में लोकगीत जनमानस के सुख-दुःख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। इतना ही नहीं देश की विविधता को एकता के सूत्र में बाँधने में हिंदी फिल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है वही कार्य फिल्मी गीत और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह गाने जन-जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार-चढ़ाव की अनुगूँजों के साथ देहाती कस्बायी और नए बने शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। भारत की जिस गंगा-जमुनी संस्कृति का महिमामंडन बहुधा होता है उसकी गूँज भी इन गीतों में मिलती है। आजादी की लड़ाई के दौरान लिखे प्रदीप के गीत हों या स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही होनेवाले देश के विभाजन की विभीषिका, सभी को भी इन गीतों में बहुत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया गया है।

हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी-उर्दू का 'झगड़ा' भी कभी पनप नहीं सका। प्रदीप, नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदीवर तथा शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकारों और साहिर, कैफ़ी, मजरूह जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बिरादरी का माना जाता रहा है। यह सिनेमा की इस दुनिया की ही खासियत है कि एक तरफ गीतकार साहिर ने 'कहाँ हैं कहाँ हैं/मुहाफिज खुदी के/ जिन्हें नाज है हिंद पर/ वो कहाँ हैं' लिखा तो दूसरी तरफ उन्होंने ही 'संसार से भागे फिरते हो/ भगवान को तुम क्या पाओगे !/ ये भोग भी एक

तपस्या है / तुम प्यार के मारे क्या जानोगे / अपमान रचयिता का होगा/ रचना को अगर ठुकरा ओगो!' जैसी पंक्तियाँ भी रची हैं। परवर्तियों में गुलजार ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी के साथ पुरबिया बोलियों में मन को मोह लेने वाले गीतों की रचना की है। बंदिनी के 'मोरा गोरा अंग लइले, मोहे श्याम रंग दइदे', 'कजरारे-कजरारे तेरे कारे-कारे नयना!', 'यारा सिली सिली रात का ढलना' और 'चप्पा चप्पा चरखा चले' जैसे गीतों को रचकर उन्होंने भारत की साझा संस्कृति को मूर्तिमान कर दिया है। वस्तुतः भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत उसे विश्व-सिनेमा में एक अलग पहचान देते हैं। ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं।

क. हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है?

- ये जनमानस के रीति-रिवाजों और कल्पनाओं को स्वर देते हैं।
- ये जनमानस के जीवन के अनुभवों और विचारों को स्वर देते हैं।
- ये जनमानस के सुख-दुख, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं।
- ये जनमानस के जीवन के यथार्थ और कठोरताओं को स्वर देते हैं।

ख. हिन्दी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया?

- राजभाषा विभाग के सहयोग से
- विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से
- विविध भाषाओं की फिल्मों को प्रोत्साहित करके
- विविध भाषाओं की फिल्मों को हतोत्साहित करके

ग. कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए:

कथन (A) : हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं।

कारण (R) : इन गीतों में राजनीति की अनुगुंजों के साथ, देहाती, कस्बायी और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है।

- कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।
- कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।
- कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।
- कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

घ. 'हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी-उर्दू का 'झगड़ा' भी कभी पनप नहीं सका।' इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन-सा / कौन-से तर्क सही हैं?

- यहाँ हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बिरादरी का माना जाता है।
  - ये गीतकार उर्दू, तत्सम प्रधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं।
  - इन गीतकारों में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है।
- 1 सही है।
  - 2 सही है।
  - 3 सही है।
  - 1 और 2 सही है।

ङ. उपर्युक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया गया है?

- ये गीत कलात्मक श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करते हैं।
- ये गीत सांप्रदायिक सद्भाव को अभिव्यक्त करते हैं।
- ये गीत पारस्परिक प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं।

D. ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं।

**प्रश्न 2. निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक (1×5=5) उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए।**

हम धरती के बेटे बड़े कमरे हैं ।  
भरी थकन में सोते फिर भी —  
उठते बड़े सवेरे हैं ॥

धरती की सेवा करते हैं  
कभी न मेहनत से डरते हैं  
लू हो चाहे ठण्ड सयानी  
चाहे झर-झर बरसे पानी  
ये तो मौसम हैं हमने  
तूफ़ानों के मुँह फेरे हैं ।

खेत लगे हैं अपने घर से  
हमको गरज नहीं दफ़्तर से  
दूर शहर से रहने वाले  
सीधे-सादे, भोले-भाले  
रखवाले अपने खेतों के  
जिनमें बीज बिखेरे हैं ।

हाथों में लेकर हल-हँसिया  
गाते नई फ़सल के रसिया  
धरती को साड़ी पहनाते  
दूर-दूर तक भूख मिटाते  
मुट्ठी पर दानों को रखकर  
कहते हैं बहुतेरे हैं

हम धरती के बेटे बड़े कमरे हैं ।  
भरी थकन में सोते फिर भी —  
उठते बड़े सवेरे हैं ॥

**क. 'हम धरती के बेटे बड़े कमरे हैं!' से आशय है?**

- A. हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं।
- B. हम धरती के बहुत आलसी बेटे हैं।
- C. हम धरती के बहुत बुद्धिमान बेटे हैं।
- D. हम धरती के बहुत अज्ञानी बेटे हैं।

**ख. कवि ने किसानों को 'फसलों का रसिया' क्यों कहा है?**

- A. किसान फसलों को उगाते हैं।
- B. किसान फसलों को काटते हैं।
- C. किसान फसलों से प्रेम करते हैं।

D. किसान फसलों को बेच देते हैं।

ग. किसान 'धरती की सेवा' \_\_\_\_\_ करते हैं?

- A. खेतों में फसल उगाकर
- B. सर्दी, गर्मी, बरसात सहकर
- C. बिना विश्राम परिश्रम कर
- D. खेतों के पास घर बनाकर

घ. कथन (A) और कारण (R) पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए:

(A) हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं।

(R) हमारे घर शहरों से दूर होते हैं।

- A. कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) गलत है।
- B. कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।
- C. कथन (A) व (R) सही हैं और कथन (A), (R) की सही व्याख्या है।
- D. कथन (A) व (R) सही हैं और कथन (A), (R) की सही व्याख्या नहीं है।

ङ. 'हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है।' कविता की पंक्ति

\_\_\_\_\_ का आशय है —

- A. तूफानों के मुँह फेरे हैं
- B. रखवाले अपने खेतों के
- C. धरती को साड़ी पहनाते
- D. दूर-दूर तक भूख मिटाते

प्रश्न 3. निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए।

(1×4 =4)

क. 'रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।' इस वाक्य का सरल वाक्य होगा -

- A. रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।
- B. रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।
- C. रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।
- D. रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।

ख. 'दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।' इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा -

- A. जैसे ही दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे, उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।
- B. दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।
- C. दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।
- D. जब भी हालदार साहब उधर से गुजरते हैं मूर्ति में अंतर दिखायी देता है।

ग. निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है :

- A. अजमेर से पहले पिता जी इंदौर में थे।
- B. हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड इयर भी खोलना पड़ा।
- C. हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड इयर खोल दिया।
- D. हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड इयर भी खोलना पड़ा।

घ. निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचानकर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए।

1. असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है।
2. मैं एक दिन अमेरिका जाऊँगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊँगी।
3. जैसे ही रमेश आया, वैसे ही मोहन चल दिया।
4. विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा।

- A. 1 और 2 सही है।
- B. 2 और 3 सही है।
- C. 1 और 4 सही है।
- D. 2 और 4 सही है।

ङ. कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए ?

कॉलम 1	कॉलम 2
1. सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए।	i. मिश्र वाक्य
2. मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था।	ii. सरल वाक्य
3. कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो।	iii. संयुक्त वाक्य

- A. 1 i, 2 ii, 3 iii
- B. 1 ii, 2 iii, 3 i
- C. 1 i, 2 iii, 3 ii
- D. 1 ii, 2 i, 3 iii

प्रश्न 4. निर्देशानुसार 'वाच्य' पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए।

(1×4 =4)

क. बालगोबिन भगत कबीर को 'साहब' मानते थे। (कर्म वाच्य में बदलिए)

- A. बालगोबिन भगत द्वारा कबीर को 'साहब' माना जाता था।
- B. बालगोबिन भगत द्वारा कबीर को 'साहब' माना जाता है।
- C. बालगोबिन भगत कबीर को 'साहब' मानते हैं।
- D. बालगोबिन भगत से कबीर को 'साहब' माना जाता है।

ख. भोर में लोगों से बालगोबिन भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य है —

- A. कर्म वाच्य

- B. भाव वाच्य
- C. कर्तृ वाच्य
- D. कर्तृ और कर्म वाच्य दोनों

ग. 'धान के पानी-भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं।' उदाहरण है--

- A. भाव वाच्य
- B. कर्तृ वाच्य
- C. कर्म वाच्य
- D. विचार वाच्य

घ. निम्नलिखित वाक्यों में भाव वाच्य का उदाहरण है:

1. माता जी मिठाई बना सकती हैं।
2. मुझसे बैठा नहीं जाता।
3. भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है।
4. गर्मियों में छत पर सोया जाता है।

- A. 1 और 2 सही है।
- B. 2 और 3 सही है।
- C. 1 और 4 सही है।
- D. 2 और 4 सही है।

ङ. कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए ?

कॉलम 1	कॉलम 2
1. गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं।	i. भाव वाच्य
2. गोपाल से पत्र लिखा जाता है।	ii. कर्तृ वाच्य
3. धूप में चला नहीं जाता।	iii. कर्म वाच्य

**विकल्प**

- A. 1. i , 2. ii , 3. iii
- B. 1.ii , 2. iii , 3. i
- C. 1. i , 2. iii, 3.ii
- D. 1. ii, 2. i , 3. lii

प्रश्न 5. निर्देशानुसार 'पद परिचय' पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए।

(1×4 =4)

क. हम देहरादून घूमने गए। -- रेखांकित पद का परिचय है?

- A. संज्ञा, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता
- B. सर्वनाम, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता
- C. सर्वनाम, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता
- D. सर्वनामिक विशेषण, प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता

ख. शशि दसवीं कक्षा में पढ़ती है। -- रेखांकित पद का परिचय है?

- A. विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'कक्षा' विशेष्य
- B. क्रियाविशेषण, परिमाणवाचक, 'पढ़ना' क्रिया
- C. विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'कक्षा' विशेष्य
- D. विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, 'कक्षा' विशेष्य

ग. वह स्कूल से अभी-अभी आया है। -- रेखांकित पद का परिचय है?

- A. संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, करण कारक
- B. संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक
- C. संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक
- D. संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक

घ. वह मेरी बात पर बहुत हँसा। -- रेखांकित पद का परिचय है?

- A. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, हँसना क्रिया का विशेषण
- B. विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'हँसना' विशेष्य
- C. विशेषण, परिमाण वाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'हँसना' विशेष्य
- D. विशेषण, परिमाण वाचक, पुल्लिंग, एकवचन, 'हँसना' विशेष्य

ङ. योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है।-- रेखांकित पद का परिचय है?

- A. संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन
- B. संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन
- C. संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन
- D. विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'पिता' विशेष्य

प्रश्न 6. निर्देशानुसार 'अलंकार' पर आधारित पाँच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए।

(1×4 =4)

क. 'सुनत जोग लागत है ऐसौ, ज्यों करुई ककरी' में अलंकार है-

- A. उत्प्रेक्षा
- B. श्लेष
- C. यमक
- D. अनुप्रास

ख. 'कहीं साँस लेते हो घर- घर भर देते हो' पंक्ति में निहित अलंकार है-

- A. उपमा
- B. रूपक
- C. यमक
- D. मानवीकरण

ग. 'उस काल मारे क्रोध के, तन काँपने उसका लगा। मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा।' में अलंकार है-

- A. उत्प्रेक्षा
- B. रूपक
- C. श्लेष
- D. उपमा

घ. निम्नलिखित में उत्प्रेक्षा अलंकार है-

- A. बादल, गरजो!-
- B. घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ!
- C. ललित ललित, काले घुँघराल
- D. चित्रकूट जनु अचल अहेरी।

ङ. 'सुबरन को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर।' में अलंकार है-

- A. उपमा
- B. रूपक
- C. यमक
- D. श्लेष

प्रश्न 7. निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए-

(1×5 =5)

जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय हो कहा जाना चाहिए। महत्त्व मूर्ति के रंग-रूप या कद का नहीं, उस भावना का है वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है।

दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेमवाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेमवाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतूहल और बढ़ा। वह भई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है।

**क. 'जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई' अर्थात्**

- A. जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई।
- B. जीप कस्बे में रुक कर आगे बढ़ गई।
- C. जीप कस्बे में रुक गई।
- D. जीप कस्बे में नहीं गई।

**ख. हालदार साहब किसके विषय में सोचते रहे ?**

- A. नेताजी के बारे में
- B. मूर्ति के बारे में
- C. चौराहे के बारे में
- D. कस्बे के बारे में

**ग. 'वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है।' से आशय है...**

- A. आजकल देशभक्त होना संभव नहीं है।
- B. आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया है।
- C. आजकल सभी देशभक्त हो गए हैं।
- D. आजकल देशभक्ति की प्रासंगिकता नहीं है।

**घ. दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया?**

- A. मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था।
- B. मूर्ति पर पुराना चश्मा था।
- C. मूर्ति पर एक नया चश्मा था।
- D. मूर्ति छतिग्रस्त थी।

**ङ. 'नेताजी का चश्मा' पाठ..**

- A. देशभक्ति के भाव पर व्यंग्य करता है।
- B. देशभक्ति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है।
- C. देशभक्ति के महत्व को स्थापित करता है।
- D. देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है।

प्रश्न 8. 'क्षितिज' के गद्य पाठों के आधार निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए-

(1×2=2)

क. 'बालगोविन भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है?

- A. आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की
- B. कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने की
- C. सामाजिक रूढ़ियों का समर्थन करने की
- D. पूजा-पाठ और यज्ञ आदि करने की

ख. अमीरउद्दीन को रसूलनबाई और बातूलनबाई के घरवाला रास्ता क्यों पसंद था?

- A. संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण।
- B. संगीत के प्रति अरुचि के कारण।
- C. वह छोटा रास्ता था।
- D. वह रास्ता साफ-सुथरा था।

प्रश्न 9. निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए—

(1×5 =5)

बिहसि लखन बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महाभट मानी ॥  
 पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु। चहत उडावन फूँकि पहारू ॥  
 इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि हरि नाहीं ॥  
 देखि कुठारु सरासन बाना। मैँ कछु कहा सहित अभिमाना ॥  
 भृगुसुत समुझि जनेउ विलोकी। जो कछु कहहु सह रिस रोकी ॥  
 सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥  
 बधे पापु अपकीरति हारें। मारतहूँ पा परिरअ तुम्हारे ॥

क. परशुराम बार-बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे हैं?

- A. राम को भयभीत करने के लिए
- B. लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए
- C. विश्वामित्र को भयभीत करने के लिए
- D. महाराज जनक को भयभीत करने के लिए

ख. निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लक्ष्मण की शक्तिशाली होने का पता चलता है:

- A. बिहसि लखनु बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महाभट मानी।।
- B. पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु। चहत उड़ावन फूँकि पहारू।।
- C. देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना।।
- D. इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं।।

ग. रघुकुल में किन-किन के प्रति अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है?

- A. देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर
- B. स्त्रियों, बच्चों, ईश्वर भक्त और गाय पर
- C. देवता, राजा, वीर योद्धा और स्त्रियों पर
- D. स्त्रियों, बच्चों, राजा और गाय पर

घ. 'बिहसि लखन बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महाभट मानी' यह कथन \_\_\_\_\_ का उदाहरण है।

- A. व्यंग्य का
- B. हास्य का
- C. क्रोध का
- D. वैराग्य का

ङ. उपर्युक्त पद्यांश में लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है ?

- A. वीरता
- B. धैर्य
- C. शिष्टता
- D. विनम्रता

प्रश्न 10. पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित दो प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए —

(1×2=2)

क. 'दंतुरित मुस्कान' कविता में कवि को शिशु का धूल-धूसरित शरीर प्रतीत होता है?

- A. स्नान करवाने योग्य।
- B. वस्त्र-आभूषण से सजाने योग्य।
- C. खिले हुए सुंदर कमल के समान।
- D. मिट्टी से सने हुए पौधे के समान।

ख. संगतकार पाठ के अनुसार संगतकार की मुख्य विशेषता क्या होती है?

- A. उसकी मानवीयता
- B. उसकी कलात्मक श्रेष्ठता
- C. उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांक्षा
- D. उसकी आत्म मुग्धता

### खंड-ब (वर्णनात्मक प्रश्न)

प्रश्न 11. गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए:

(2×3=6)

- क. क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा? क्यों? युक्तियुक्त उत्तर दीजिए।
- ख. महानगरों की 'फ्लैट-कल्चर' और लेखिका मन्नू भंडारी के 'पड़ोस-कल्चर' में क्या अंतर दिखाई देता है? विचार करते हुए लिखिए।
- ग. 'मंगल ध्वनि' का क्या अभिप्राय है? बिस्मिल्लाह खान की 'शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक' क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए।
- घ. सच्चे अर्थों में 'संस्कृत व्यक्ति' किसे कहा जाता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित लिखिए।

प्रश्न 12. निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए:

(2×3=6)

- क. गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है?
- ख. 'साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है।' इस कथन पर 'राम लक्ष्मण परशुराम संवाद' पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
- ग. आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में 'अभी समय भी नहीं' कवि ऐसा क्यों कहता है?

घ. फसल 'हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा' किस प्रकार है? विचार कीजिए।

**प्रश्न 13. पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए—**

(4×2=8)

क. 'माता का प्रेम, पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है।' 'माता के अंचल' पाठ के आधार पर पर विचार कीजिए।

ख. 'मैं क्यों लिखता हूँ' प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है?

ग. 'मेहनतकश बादशाहों का शहर' किस शहर को कहा गया है और क्यों?

**प्रश्न 14. निम्नलिखित तीन विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए —**

(6×1=6)

क. स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव

भूमिका, अमृत महोत्सव का अर्थ, इस महोत्सव में होने वाले समारोह, इस महोत्सव का महत्व, निष्कर्ष

ख. भाग्य और पुरुषार्थ

भूमिका, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है, परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल लेता है, निष्कर्ष

ग. पर्वतीय स्थल की यात्रा

भूमिका, प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा वर्णन, सांस्कृतिक महत्व

**प्रश्न 15. किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए:**

(5×1=5)

क. आपका नाम **दिशा/दक्ष** है। आपकी आयु मतदान करने योग्य हो गई है। आपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुण ऐप के द्वारा आवेदन कर दिया है। किन्तु काफी समय के बाद भी आपका मतदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला। **मतदाता पहचान पत्र के वितरण में देरी** की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के **बी. एल. ओ. (ब्लॉक लेवल ऑफिसर)** को पत्र लिखिए।

**अथवा**

ख. आपका नाम **दिशा/दक्ष** है। आप अपने आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को देखते हैं और उन्हें साक्षर बनाने हेतु कुछ प्रयास करते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र मानव को पत्र लिखिए।

**प्रश्न 16. क.** आपका नाम सुनीता/सुरेश है। आप राजेन्द्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला है कि स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। आप उक्त पद की योग्यता



